

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. (भ/स)

उपसंभाग सुसनेर

क्रमांक ...203 / तक. / 2024-25
प्रति,

सुसनेर दिनांक 05 / 07 / 2024

प्राचार्य
कक्का इन्टरनेशनल स्कूल
नलखेडा

विषय :- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।


संदर्भ :- केंद्रीय विद्यालय आगर का पत्र दिनांक 04.07.2024

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत वर्तमान में संचालित कक्का इन्टरनेशनल स्कूल नलखेडा का निरीक्षण दिनांक 05.07.2024 को किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भवन का निर्माण वर्ष 2010 में किया गया था, भवन उपयोग करने योग्य है।

अतः भवन मजबूतीकरण हेतु प्रमाण पत्र आज दिनांक से 01 वर्ष के लिये जारी किया जाता है।

संलग्न:- एनेक्सर-डी


अनुविभागीय अधिकारी
लो.नि.वि. उपसंभाग सुसनेर

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated:

It is certified that the existing building KAKKA INTERNATIONAL (name of the building or premises) at BHAISODA ROAD, NALKHEDA, DIST. AGAR MALWA (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	G+1	G+1				

The building is owned/occupied by KAKKA INTERNATIONAL SCHOOL (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of M.P. P.W.D. (Name of Department/ Govt.) on 5/07/2024 (date of inspection) in the presence of MR. MAYUR MUNDRA, STAFF RESIDENCE (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises ^{KIS} is fit for occupancy for running school with effect from 2024-2025 for a period of 05 [Five] years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 05/07/2024 at SUSNER by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal : [Signature]

Name : A.P. Pandey

Designation : Asst. D. P. W. D.

Name & Address of Department/ Office: SUSNER